

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 8, 1979/पौष 18, 1900
No. 19] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY. 8, 1979/PAUSA 18, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1979

नियति व्यापार नियंत्रण

का०आ० 20 (अ) संख्या 8 (सी)डी. 1977/एएम(88). आयात एवं निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम 1947 (1947 का 18) की धारा-3 के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश 1977 में और आगे संशोधन करने
के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात् - -

1. इस प्रादेश को निर्यात (नियंत्रण) पावर्षा संशोधन प्रादेश, 1979 की संज्ञा दी जाए।
2. निर्यात (नियंत्रण) प्रादेश, 1977 में खुला सामान्य लाहसेल-4 में क्रम संख्या-28 के पश्चात निम्नलिखित मद जोड़ी जाएगी।

1	2	3	4
29	तेल रहित मूंगफली की खली (सत)	बी-40	राज्य व्यापार नियम

[मि० सं० 38(1)/79-ई० II]
का० वें० बोधादि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATIONS

Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 8th January, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

S. O. 20 (E). No. E. (C)O, 1977/AM/(88).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports & Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947) the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Export (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Fifth Amendment Order, 1979.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in OGL-4, the following item shall be added after S. No. 28.

1	2	3	4
29.	De-oiled groundnut cake (extractions).	B. 40	State Trading Corporation.

[F. No. 38 (1)/79-EII]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports.